



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 87 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2001/माघ 24, 1922

No. 87]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2001/MAGHA 24, 1922

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2001

का. आ. 129(अ).—केन्द्र सरकार की यह राय है कि 02-12-2000 को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के अंबाला-लुधियाना (सेक्शन) पर डाउन फूडग्रेन्स स्पेशल के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल के टकराने से हुई दुर्घटना के कारणों की जाँच करने के उद्देश्य से एक जाँच आयोग का गठन करना अनिवार्य है।

2. अतः, अब जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा एक जाँच आयोग का गठन करती है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस. सगीर अहमद इस आयोग के एकमात्र सदस्य होंगे।

3. उक्त आयोग निम्नलिखित जाँच करेगा :—

- (क) उक्त दुर्घटना के कारण (कारणों) की जाँच;
- (ख) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, यदि कोई हो/हों, की जिम्मेदारी तय करना, और
- (ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय सुझाना।

4. आगे, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त खंड के उप-खंड (2), उपखंड (3) और उप-खंड (5) के सभी उपबंध उक्त जाँच आयोग पर लागू होंगे।

5. उक्त आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

6. इस दुःखद घटना की प्रकृति को देखते हुए उक्त आयोग कम से कम संभव समय में इसकी जाँच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[सं. 2000/ई (ओ) II/1/9]

धनंजय पति त्रिपाठी, सचिव

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2001

**S.O. 129(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the causes of the accident involving collision of 3005 Up Howrah-Amritsar Mail with the derailed wagons of Down Foodgrain Special on the Ambala-Ludhiana Section of Northern Railway's Ambala Division on 2-12-2000.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice S. Saghir Ahmad, Retd. Judge of the Supreme Court of India as its sole member.

3. The said Commission of Inquiry shall—

- (a) make an inquiry into the cause(s) of the accident;
- (b) ascertain the responsibility of the person or persons, if any, responsible for the accident; and
- (c) suggest safeguards for the prevention of accidents of similar nature in future.

4. Further, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government directs that all provisions of sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (5) of the said section shall apply to the said Commission of Inquiry.

5. The headquarters of the said Commission will be at Delhi.

6. The said Commission shall complete its inquiry and submit its report to the Central Government within the shortest possible time keeping in view the nature of the tragedy.

[No. 2000/E(O)II/1/9]

D.P. TRIPATHI, Secy.